



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

No. 32]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 1978/माघ 4, 1899

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 1978/MAGHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1978

अधिसूचना

का० आ० 35(अ) -- अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन, किया गया निम्नलिखित आदेश प्रकाशित किया जाता है --

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में संशोधन करने के लिए, तारीख 9 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र तथा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के राजपत्रों में अपनी प्रस्थापनाये प्रकाशित की थी,

और, इस आयोग द्वारा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बारे में इन प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त सभी आक्षेपों तथा मुद्दों पर, आन्ध्र प्रदेश राज्य के बारे में, तारीख 26 दिसम्बर, 1977 को हैदराबाद में तथा तारीख 18 जनवरी, 1978 को नई दिल्ली में, कर्नाटक राज्य के बारे में, तारीख 25 दिसम्बर, 1977 को बंगलौर में, तथा महाराष्ट्र राज्य के बारे में 30 और 31 दिसम्बर, 1977 को बम्बई में और 17 जनवरी, 1978 को नई दिल्ली में हुई--पार्वजनिक बैठकों में विचार किया गया था,

यह आयोग, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बारे में, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में

(ऐसे आदेश में यथावर्धित किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में कोई परिवर्तन न करने हुए) निम्नलिखित संशोधन करता है --

I उक्त आदेश की अनुसूची 1 में--

मद 11--महाराष्ट्र के सामने, स्तम्भ 7 के नीचे, अंक "3" के स्थान पर, अंक "4" रखा जाएगा,

II उक्त आदेश की अनुसूची 2 में--

(1) मद 1--आन्ध्र प्रदेश के सामने, स्तम्भ 7 के नीचे, अंक "11" के स्थान पर अंक "15" रखा जाएगा,

(2) मद 4--कर्नाटक के सामने, स्तम्भ 6 के नीचे, अंक "29" के स्थान पर, अंक "33" रखा जाएगा, और

(3) मद 11--महाराष्ट्र के सामने--

(1) स्तम्भ 6 के नीचे, अंक "17" के स्थान पर, अंक "18" रखा जाएगा; और

(ii) स्तम्भ 7 के नीचे अंक "17" के स्थान पर, अंक "22" रखा जाएगा।

III उक्त आदेश की अनुसूची 3 में--

(1) भाग क--संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में--

(i) 2-पार्षधीपुरम (अ० ज० जा०) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "10-सालुर" के स्थान पर, "10-सालुर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;

(ii) 5-मद्रासलम (अ० ज० जा०) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "73-पोलावरम" के स्थान पर, "73-पोलावरम (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;

- (iii) 39-बारगल में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "273-मुलुग" के स्थान पर, "273-मुलुग (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iv) 41-नालगोडा में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "294-देवेरकोडा" के स्थान पर, "294-देवेरकोडा (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;

IV. उक्त आदेश की अनुसूची 10 में—

(1) भाग क—मसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में—

- (i) 2-गुलशर्मा में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में "11-शाहाबाद" के स्थान पर, "11-शाहाबाद (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (ii) 12-बंगलौर उत्तरी में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "84-शान्तिनगर" के स्थान पर, "84-शान्तिनगर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iii) 15-चामराजनगर (अ० ज० जा०) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "113-टी० नरसीपुर" के स्थान पर, "113-नरसीपुर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iv) 22-कनारा में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "168-मिरसी" के स्थान पर "168-मिरसी (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;

(2) भाग ख—सभा निर्वाचन-क्षेत्र में—

- (i) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "11-शाहाबाद" के स्थान पर, "11-शाहाबाद (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (ii) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "84-शान्तिनगर" के स्थान पर, "84-शान्तिनगर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iii) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "113-टी० नरसीपुर" के स्थान पर, "113-टी० नरसीपुर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iv) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "168-मिरसी" के स्थान पर, "168-मिरसी (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;

V. उक्त आदेश की अनुसूची 13 में—

(1) भाग क—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में—

- (i) 9-बम्बई उत्तर में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में "62-पालघर" के स्थान पर, "62-पालघर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (ii) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "14-धुलिया" के स्थान पर, "14-धुलिया (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा; और उसके निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "79-ब्रगलान" के स्थान पर, "79-ब्रगलान (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iii) 15-नन्दुरबार (अ० ज० जा०) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "82-नन्दुरबार" के स्थान पर, "82-नन्दुरबार (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iv) 26-चुन्नापुर में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "152-गाडचिरोली" के स्थान पर, "152-गाडचिरोली (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (v) 28-वसन्तमान में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "162-केलापुर" के स्थान पर, "162-केलापुर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;

- (vi) 36-ओममानाबाद (अ० ज० जा०) में, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "207-कल्लम" के स्थान पर, "207-कल्लम (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;

(2) भाग ख—सभा निर्वाचन क्षेत्र में—

- (i) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "62-पालघर" के स्थान पर, "62-पालघर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (ii) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "79-ब्रगलान" के स्थान पर, "79-ब्रगलान (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iii) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "82-नन्दुरबार" के स्थान पर, "82-नन्दुरबार (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (iv) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "152-गाडचिरोली" के स्थान पर, "152-गाडचिरोली (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (v) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "162-केलापुर" के स्थान पर, "162-केलापुर (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा;
- (vi) निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या और नाम "207-कल्लम" के स्थान पर, "207-कल्लम (अ० ज० जा०)" रखा जाएगा।

व्याम लाल शकधर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० 282/अ० ज०-अ० ज० जा०/78]

आदेश से,

एस० पी० राजे, अध्वर मण्डित

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 21st January, 1978

NOTIFICATION

S.O. 35(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 8 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the following Order made by the Election Commission under clause (d) of sub-section (3) of Section 6 of the Act is hereby published :—

ORDER

Whereas under clause (a) of sub-section (3) of Section 6 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the proposals of the Election Commission to amend the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, were published in the Gazette of India and in the official Gazettes of the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra on 9th September, 1977;

And whereas all objections and suggestions received in relation to the said proposals relating to the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra were considered by the Commission at public sittings held at Hyderabad on 26th December, 1977 and at New Delhi on 18th January, 1978 in respect of the State of Andhra Pradesh; at Bangalore on 28th December, 1977 in respect of the State of Karnataka; and at Bombay on 30th and 31st December, 1977 and at New Delhi on 17th January, 1978 in respect of the State of Maharashtra;

The Commission hereby makes the following amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order) in respect of the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra—

1. In Schedule 1 of the said Order—

Against item 11-Maharashtra, under column 7, the figure "4" shall be substituted for the figure "3";

II. In Schedule II of the said Order,

- (1) Against item 1—Andhra Pradesh—under column 7, the figure “15” shall be *substituted* for the figure “11”;
- (2) Against item 8—Karnataka—under column 6, the figure “33” shall be *substituted* for the figure “29”; and
- (3) Against item 11—Maharashtra—
 - (i) Under column 6, the figure “18” shall be *substituted* for the figure “17”; and
 - (ii) Under column 7, the figure “22” shall be *substituted* for the figure “17”.

III. In Schedule III of the said Order—

(1) In Part A—Parliamentary Constituencies—

- (i) In 2-Parvathipuram (ST), in the extent of the constituency, “10-Salur (ST)” shall be *substituted* for “10-Salur”;
- (ii) In 5-Bhadrachalam (ST), in the extent of the Constituency, “73-Polavaram (ST)” shall be *substituted* for “73-Polavaram”.
- (iii) In 39-Warangal, in the extent of the constituency, “273-Mulug(ST)” shall be *substituted* for “273-Mulug”; and
- (iv) In 41-Nalgonda, in the extent of the constituency, “294-Deverkonda (ST)” shall be *substituted* for “294-Deverkonda”.

(2) In Part B—Assembly Constituencies—

- (i) the serial No. and name of the constituency, “10-Salur (ST)” shall be *substituted* for “10-Salur”;
- (ii) the serial No. and name of the constituency, “73-Polavaram (ST)” shall be *substituted* for “73-Polavaram”;
- (iii) the serial No. and name of the constituency, “273-Mulug (ST)” shall be *substituted* for “273-Mulug”; and
- (iv) the serial No. and name of the constituency, “294-Deverkonda (ST)” shall be *substituted* for “294-Deverkonda”.

IV. In Schedule X of the said Order—

(1) In Part A—Parliamentary Constituencies—

- (i) In 2-Gulbarga, in the extent of the constituency, “11-Shahabad (SC)” shall be *substituted* for “11-Shahabad”;
- (ii) In 12-Bangalore North, in the extent of the constituency, “84-Shanthinagar (SC)” shall be *substituted* for “84-Shanthinagar”;
- (iii) In 15-Chamarajanagar (SC), in the extent of the constituency, “113-T. Narasipur (SC)” shall be *substituted* for “113-T. Narasipur”; and
- (iv) In 22-Kanara, in the extent of the constituency, “168-Sirsi (SC)” shall be *substituted* for “168-Sirsi”.

(2) In Part B—Assembly Constituencies—

- (i) the serial No. and name of the constituency, “11-Shahabad (SC)” shall be *substituted* for “11-Shahabad”;

- (ii) the serial No. and name of the constituency, “84-Shanthinagar (SC)” shall be *substituted* for “84-Shanthinagar”;

- (iii) the serial No. and name of the constituency, “113-T. Narasipur (SC)” shall be *substituted* for “113-T. Narasipur”; and

- (iv) the serial No. and name of the constituency, “168-Sirsi (SC)” shall be *substituted* for “168-Sirsi”.

V. In Schedule XIII of the said Order—

(1) In Part A—Parliamentary Constituencies—

- (i) In 9-Bombay North, in the extent of the constituency, “62-Palghar (ST)” shall be *substituted* for “62-Palghar”;
- (ii) The serial No. and name of the constituency “14-Dhulia (ST)” shall be *substituted* for “14-Dhulia”; and in the extent of the constituency, “79-Baglan (ST)” shall be *substituted* for “79-Baglan”;
- (iii) In 15-Nandurbar (ST), in the extent of constituency, “82-Nandurbar (ST)” shall be *substituted* for “82-Nandurbar”;
- (iv) In 26-Chandrapur, in the extent of the constituency, “152-Gadchiroli (ST)” shall be *substituted* for “152-Gadchiroli”;
- (v) In 28-Yeotmal, in the extent of the constituency, “162-Kelapur (ST)” shall be *substituted* for “162-Kelapur”;
- (vi) In 36-Osmanabad (SC), in the extent of the constituency, “207-Kallam (SC)” shall be *substituted* for “207-Kallam”.

(2) In Part B—Assembly Constituencies—

- (i) The serial No. and name of the constituency, “62-Palghar (ST)” shall be *substituted* for “62-Palghar”;
- (ii) The serial No. and name of the constituency, “79-Baglan (ST)” shall be *substituted* for “79-Baglan”;
- (iii) The serial No. and name of the constituency, “82-Nandurbar (ST)” shall be *substituted* for “82-Nandurbar”;
- (iv) The serial No. and name of the constituency, “152-Gadchiroli (ST)” shall be *substituted* for “152-Gadchiroli”;
- (v) The serial No. and name of the constituency, “162-Kelapur (ST)” shall be *substituted* for “162-Kelapur”; and
- (vi) The serial No. and name of the constituency, “207-Kallam (SC)” shall be *substituted* for “207-Kallam”.

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner
of India.

[No. 282/SC-ST/78]

By Order,

S. P. RAJE, Under Secy.

to the Election Commission of India.

